



SBI CLERK 2023



MATHS MOCK TEST

PAPER - 7

EXAM से पहले इसे जरूर देखें।

LIVE

11:00 AM





SBI CLERK 2023



Question 1- A 600 liter of mixture of milk and water contains water 60%, 20% of mixture is removed and replaced by y liter of milk then the ratio of milk ad water becomes 15:8.) Find the quantity of y.

प्रश्न 1- दूध और पानी के 600 लीटर मिश्रण में 60% पानी है। 20% मिश्रण को हटा दिया जाता है और उसे y लीटर दूध से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो दूध के पानी का अनुपात 15:8 हो जाता है। y की मात्रा ज्ञात कीजिये।

30

- A. 72 L
- B. 36 L
- C. 64 L
- D. 48 L
- E. None of these



SBI CLERK 2023



$$\textcircled{1} \quad \text{Total} = 600 \text{ L.}$$

$$W = 60\% \text{ of } 600$$

$$W = 360 \text{ L.}$$

$$M = 240 \text{ L.}$$

$$\frac{M}{W} = \frac{15}{8}$$

$$\frac{80\% \text{ of } 240 + y}{80\% \text{ of } 360} = \frac{15}{8}$$

$$\frac{192 + y}{288} = \frac{15}{8}$$

$$\begin{aligned} 36 \\ 192 + y = 540 \\ y = 340 \text{ L.} \end{aligned}$$



SBI CLERK 2023



Question 2- The present age of P is 40% more than present age of Q.

After 12 years the average of these age will be 96 years. Find the age of P 4 year before.

प्रश्न 2- P की वर्तमान आयु, Q की वर्तमान आयु से 40% अधिक है। 12 वर्ष के बाद इन आयु का औसत 96 वर्ष होगा। 4 वर्ष पहले P की आयु ज्ञात कीजिये।

- A. 24 years
- B. 36 years
- C. 88 years
- D. 96 years
- E. None of these

30



SBI CLERK 2023



① P Q
40% = $\frac{2}{5}$ TX : 5X

$$7X + 12 + 5X + 12 = 192$$

$$12X = 168$$

$$X = 14$$

P's age before 4 years
= $14X + 4$
= 94 years

Average = 96
Sum = 96×2



SBI CLERK 2023



Question 3- The income of P is Rs 40,000. The ratio of expenditure of P to Q is 6:7. If P saves Rs 4000 which is one third of amount saved by Q. Find the income of Q.

प्रश्न 3- P की आय 40,000 रुपये है। P और Q के व्यय का अनुपात 6:7 है। यदि P 4000 रुपये बचाता है जो Q द्वारा बचाई गई राशि का एक तिहाई है, तो Q की आय ज्ञात कीजिये।

$$I = Expt + Sav$$

30

- A. Rs 42,000
- B. Rs 54,000
- C. Rs 44,000
- D. Rs 64,000
- E. None of these



SBI CLERK 2023



$$\textcircled{1} \quad I_P = 40,000$$

$$E_P : E_Q = 6 : 7$$

$$E_P = 40000 - 4000$$

$$6 = ₹ 56000$$

$$1 = ₹ 6000$$

$$E_Q = 7 \times 6000$$

$$= ₹ 42000$$

Saving

$$\frac{1}{3} Q = 4000$$

$$Q = ₹ 12000$$

$$\text{Income} = 42000 + 12000$$

$$= \underline{\underline{₹ 54000}}$$



SBI CLERK 2023



Question 4- 240% of 50 + $\sqrt{784}$ = ? + 120% of 30

प्रश्न 4- 50 का 240% + $\sqrt{784}$ = ? + 30 का 120%

$$120 + \overbrace{28}^{-8} - 36 = x$$

$$\underline{\underline{x = 112}}$$

- A. 122
- B. 132
- C. 112
- D. 142
- E. None of these

Question 4- 240% of 50 + $\sqrt{784}$ = ? + 120% of 30

प्रश्न 4- 50 का 240% + $\sqrt{784}$ = ? + 30 का 120%



SBI CLERK 2023



960
96

192-187

Question 5- $\frac{960 \div 32 \cancel{\text{of}} 3 + 8 \times 35}{480\% \text{ of } 40 - 187} = ?$

$$\begin{aligned}x &= \frac{10 + 280}{5} \\&= \frac{290}{5} = \underline{\underline{58}}\end{aligned}$$

30

- A. 44
- B. 54
- C. 58
- D. 48
- E. None of these



SBI CLERK 2023



Question 6- $40\% \text{ of } 320 + 35\% \text{ of } 480 = ?^3 + 9 \times 19$

प्रश्न 6- $320 \text{ का } 40\% + 480 \text{ का } 35\% = ?^3 + 9 \times 19$

$$128 + 168 - 171 = x^3$$

$$x^3 = 125$$

$$x = \sqrt[3]{125}$$

$$\underline{\underline{x=5}}$$

30

- A. 15
- B. 25
- C. 5
- D. 8
- E. Nine of these



SBI CLERK 2023



Question 7- $\sqrt{361} + \sqrt{2116} + 12.5\% \text{ of } \cancel{\frac{20}{160}} = 5 \times ?$

30 $19 + 46 + 20 = 5x$

$$5x = 85$$

$$x = \underline{\underline{17}}$$

- A. 20.4
- B. 19.4
- C. 14.4
- D. 16.4
- E. None of these



SBI CLERK 2023



Question 8-

$$21\cancel{1}7 + 20\cancel{2}9 - 50 = ?^3$$

30

$$x^3 = 4146 - 50$$

$$x^3 = 4096$$

$$x = \sqrt[3]{4096}$$

$$\underline{\underline{x=16}}$$

- A. 2096
- B. 4496
- C. 4096
- D. 2496
- E. None of these




SBI CLERK 2023



The given line graph shows the number of bike sold by Suzuki and Yamaha in different places(A, B, C and D)

दिया गया रेखा ग्राफ सुजुकी और यामाहा द्वारा विभिन्न स्थानों (A, B, C और D) में बेची गई बाइक की संख्या को दर्शाता है






SBI CLERK 2023



Question 9- Find the average number of Suzuki bike sold in all places.

प्रश्न 9- सभी स्थानों पर बेची गई सुजुकी बाइक की औसत संख्या ज्ञात कीजिए।

- A. 3600
- B. 2800
- C. 3800
- D. 4800
- E. None of these





SBI CLERK 2023



$$\textcircled{1} \text{ Average} = \frac{14400}{4}$$
$$= \underline{\underline{3600}}$$




SBI CLERK 2023



Question 10- The number of Suzuki bike sold in place C is what percent of Yamaha bike sold in place A and D.

प्रश्न 10- C स्थान पर बेची गई सुजुकी बाइक की संख्या, A और D के स्थान पर बेची गई यामाहा बाइक का कितना प्रतिशत है?

- A. 12.5%
- B. 112.5%
- C. 98%
- D. 122.5%
- E. None of these





SBI CLERK 2023



$$\textcircled{1} \quad S = 9000$$

$$Y = 2000 + 8000 \\ = 10000$$

$$\% = \frac{9000}{10000} \times 100$$

$$= \underline{\underline{90\%}}$$




SBI CLERK 2023



Question 11- If total number of bike sold in place E is 45% more than the total Suzuki bike sold by A and D. Find total bike sold in E.

प्रश्न 11- यदि स्थान E में बेची गई बाइक की कुल संख्या A और D द्वारा बेची गई कुल सुजुकी बाइक से 45% अधिक है, तो E में बेची गई कुल बाइक ज्ञात कीजिये।

- A. 1115
- B. 1215
- C. 1415
- D. 1315
- E. None of these





SBI CLERK 2023



$$\textcircled{O} S = 900$$

$$E = 145\% \text{ of } 900$$

$$= \underline{\underline{1305}}$$




SBI CLERK 2023



Question 12- The number of Yamaha bike in place D is what percent more/less than the Suzuki bike in B and C.

प्रश्न 12- D स्थान पर यामाहा बाइक की संख्या, B और C में सुजुकी बाइक की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक/कम है?

- A. 40.7% more
- B. 40.7% less
- C. 45.8% more
- D. 45.8% less
- E. None of these.





SBI CLERK 2023



$$\textcircled{1} Y_D = 81000 \quad) 5500 \text{ less.}$$
$$S_{B+C} = 13500$$

$$\% = \frac{11}{13500} \times 100$$

$$= \frac{1100}{135} = 40.\overline{7}\% \text{ less}$$

189



SBI CLERK 2023



Question 13- A person sells an article at Rs 1120 and gains 40%. At what price should he sell this article so as to make profit triple.

Question 13- एक व्यक्ति एक वस्तु को 1120 रुपये में बेचता है और उसे 40% का लाभ होता है. लाभ को तिगुना करने के लिए उसे इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए?

30

- A. Rs 1460
- B. Rs 1760
- C. Rs 1560
- D. Rs 1660
- E. None of these



SBI CLERK 2023



$$\textcircled{1} \quad 140\% = ₹ 1120$$

$$1\% = ₹ 8$$

$$(P \quad 100\% = ₹ 800)$$

$$P_II = 800 \times 3$$

$$= ₹ 960$$

$$P = ₹ 520$$

$$\begin{aligned} SP II &= 800 + 960 \\ &= \underline{\underline{₹ 1760}} \end{aligned}$$



SBI CLERK 2023



Question 14- On a certain sum the difference between the simple interest and compound interest for 3 year at 20% per annum is Rs 3840. Find the compound interest on same sum at 10% per annum for 2 years.

एक निश्चित राशि पर 20% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 3840 रुपये है। 2 वर्षों के लिए उसी राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिये।

$$\text{SI} + \frac{\text{CI}}{100} = 30$$

- A. Rs 5300
- B. ~~Rs 6300~~
- C. Rs 7300
- D. Rs 8300
- E. None of these



SBI CLERK 2023



$$\textcircled{1} \quad \begin{aligned} \text{S.I.} &= 60\% \\ \text{C.I.} &= 72.8\% \end{aligned} \quad] \quad \text{Diff.} = 12.8\%$$

$$\left. \begin{aligned} P &= ₹ 30000 \\ \text{C.I.} &= 21\% \text{ of } ₹ 30000 \end{aligned} \right.$$

$$= \underline{\underline{₹ 6300}}$$

$$12.8\% = ₹ 3840$$

$$1\% = \frac{3840}{12.8}$$

$$P \rightarrow 100\% = \frac{30}{\frac{3840}{12.8}} \times 10000$$



SBI CLERK 2023



Question 15- The ratio of income of P and Q is 5:9 and the ratio of their expenditure is 1:2. If each saves Rs 6000 then find 50% of income of A.P

प्रश्न 15- P और Q की आय का अनुपात 5:9 है और वहाँ व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 6000 रुपये बचाता है, तो A की आय का 50% ज्ञात कीजिये।

30


- A. Rs 12,000
- B. Rs 14,000
- C. Rs 16,000
- D. Rs 15,000
- E. None of these



SBI CLERK 2023



①



I
E

$$\angle 1(\angle 4 : \angle 9) = \angle 5(\angle 1 : \angle 2) = 60^\circ$$

$$I_P = 6000 \times 5 \\ = 30000 \text{ Rs.}$$

$$50\% \text{ of } I_P = 50\% \text{ of } 30000 \\ = \text{₹}15000 \\ \equiv$$

Join my

TELEGRAM GROUP



@MathbyTarunsir

- Daily PDF of all YT sessions
- Discussion / Doubt Solving
- Direct Interaction with me
- Quiz
- Polls



<https://t.me/mathbytarunsirmep1>